

# मध्यप्रदेश विधान सभा



**फरवरी-मार्च, 2013 सत्र**

**दैनिक कार्य सूची**

**मंगलवार, दिनांक 26 फरवरी, 2013 (फाल्गुन 7, 1934)**

**समय 10.30 बजे दिन**

## 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

## 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री –

(क) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-54/2012/1/पांच (48), दिनांक 31 दिसम्बर, 2012; तथा

(ख) मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011) की धारा 13 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-5-8-2012-1-पांच (43), दिनांक 7 दिसम्बर, 2012 पटल पर रखेंगे.

(2) कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम का वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार :-

(क) मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड जबलपुर का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए,

(ख) मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012,

(ग) मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का दशम् वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2011-2012 (1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012), तथा

(घ) एम.पी. पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड का षष्ठम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012. पटल पर रखेंगे.

## 3. नियम 138(1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री के.पी. सिंह “कक्काजू”, सदस्य, प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के भूमि हीन व्यक्तियों को भूमि के पट्टे न दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री संजय पाठक, सदस्य, कटनी एवं नरसिंहपुर जिले में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना अंतर्गत किये जा रहे कार्य में अनियमितता होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

#### 4. याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) श्री संजय पाठक, सदस्य, कटनी जिले के-
- (क) ग्राम बड़वारा की कन्या हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,
  - (ख) ग्राम गोहावल, खिरवा नं. 1 गैरतलाई में नवीन कन्या प्राथमिक शाला खोले जाने,
  - (ग) ग्राम नदावन कघदारी कुआ सलैया, की प्राथमिक शालाओं का उन्नयन किये जाने,
  - (घ) ग्राम पपरिया कला की माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने,
  - (ङ) ग्राम जुडेहा, पिपरिया राखी, पुरैनी में नवीन कन्या शाला खोले जाने, तथा
  - (च) ग्राम बरनमोहगवां, सुतरी, बगैहा में नवीन कन्या प्राथमिक शाला खोले जाने,
- (2) डॉ. निशिथ पटेल सदस्य, कटनी जिले के –
- (क) ग्राम सलैया खुर्द में विद्युत ट्रान्सफार्मर लगाये जाने,
  - (ख) ग्राम सलैया खुर्द में हैण्ड पंप खनन किये जाने,
  - (ग) ग्राम पाकर में सोसायटी का गेहूँ खरीदी केन्द्र खोले जाने,
  - (घ) ग्राम पाली में स्टाप डेम निर्माण किये जाने,
  - (ङ) ग्राम चरगवां में स्टाप डेम निर्माण किये जाने,
  - (च) ग्राम कैमोरी से जुझारी तक सड़क निर्माण कराये जाने, तथा
  - (छ) ग्राम हिनौता में पशु औषधालय खोले जाने,
- (3) श्री जुगुल किशोर, सदस्य, सतना जिले के-
- (क) ग्राम धौरहरा, खम्हरिया के बीच पुल निर्माण कराये जाने,
  - (ख) ग्राम खम्हरिया से तुरी के बीच स्टाप डेम निर्माण कराये जाने,
  - (ग) ग्राम नैना से लोखरिहा के बीच नदी पर स्टाप डेम निर्माण कराये जाने,
  - (घ) ग्राम कोठरा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने,
  - (ङ) ग्राम सुसुआर के माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने, तथा
  - (च) ग्राम खाम्हासूरखा के माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने,
- (4) श्री मनीराम धाकड़, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम बूढीसिरथरा के माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने, तथा
- (5) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम भगौरा के हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

#### 5. शासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 1 सन् 2013) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

#### 6. नियम 139 के अधीन अबिलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में ओला, पाला, सर्दी एवं असमय बरसात के कारण फसलों को क्षति होने के संबंध में श्री रामलखन सिंह, डॉ. गोविन्द सिंह, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सर्वश्री एन.पी. प्रजापति (एन.पी.), अजय सिंह, बृजमोहन धूत, कमल पटेल तथा श्री पुरुषोत्तम दांगी, सदस्य चर्चा उठायेगे.

#### 7. वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा.

**भोपाल :**  
**दिनांक : 25 फरवरी, 2013**

**राजकुमार पांडे**  
**प्रमुख सचिव,**  
**मध्यप्रदेश विधान सभा**